



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 1, 2009/पौष 11, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2009/PAUSA 11, 1930

भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

आ.अ. 1(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अधीन शक्तियों, के अंतर्गत, जिसे दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 56/जम्मू व कश्मीर/2008/रा.दल. अनु. द्वारा जम्मू व कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचन के लिए लागू किया गया था ; का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 56/2008/रा.दल. अनु. में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है ; अर्थात् :—

अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी-IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में “किताब” तथा “शेर” प्रविष्टियों को, जम्मू व कश्मीर विधानसभा के लिए चालू साधारण निर्वाचन के उद्देश्य से केवल जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए मुक्त प्रतीकों के रूप में जोड़ा जाएगा ।

जम्मू व कश्मीर के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में “किताब” तथा “शेर” प्रतीकों का समावेश, 24 अक्टूबर, 2008 से यथा विनिर्दिष्ट रूप में प्रभावी समझा जाएगा तथा यह केवल जम्मू व कश्मीर राज्य में चालू साधारण निर्वाचन की समाप्ति तक ही लागू रहेगा ।

[सं. 56/जम्मू व कश्मीर/2008/रा.द.अनु.]

आदेश से,
के. एफ. विल्फ्रेड, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2008

O.N. 1(E).—In exercise of the powers under paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as made applicable for election to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir vide the Notification No. 56/J&K/2008/PPS dated 21st October, 2008 the Election Commission of India hereby makes the following amendment to its Notification No. 56/2008/PPS dated 17th October, 2008; namely :—

In Table IV (List of free symbols) appended to the said Notification, the entry “Book” and “Lion” shall be added as free symbols for the State of Jammu & Kashmir only for the purposes of the current general election to the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir.

The inclusion of the symbols “Book” and “Lion” in the list of free symbols for Jammu & Kashmir shall be deemed to have been so specified with effect from 24th October, 2008, and shall be in force only till the completion of the current general election in the State of Jammu & Kashmir.

[No. 56/J&K/2008/PPS]

By Order,
K. F. WILFRED, Secy.